

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3033
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- ‘देखो अपना देश’ के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कौशल विकास
- †3033. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या ‘देखो अपना देश’ पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास विकसित किया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग को थीम-आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने में मदद मिल सके, तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ‘स्वदेश दर्शन योजना’ भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेंगे तथा अब तक तैयार की गई/कार्यान्वित की गई कार्य योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके शुरू होने के बाद से पूर्व की योजनाओं सहित अब तक स्वीकृत/खर्च की गई निधियों सहित वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी हां, महोदय। पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरूआत की थी। देखो अपना देश को मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। इस पहल के तहत मंत्रालय हितधारकों से संपर्क बनाए रखने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, शपथ, चर्चाएं आयोजित करता रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने “2022 के अंत तक 15 गंतव्यों की यात्रा” के संबंध में MyGov प्लेटफार्म पर देखो अपना देश शपथ शुरू की जिसे 2,51,006 नागरिकों द्वारा लिया गया। देखो अपना देश के तहत अब तक 175 से अधिक वेबिनार आयोजित किए गए हैं। देखो अपना देश पहल के लिए अब तक कोई निधि स्वीकृत/खर्च नहीं की गई है।
